

प्रेस नोट

आम जनमानस के सुरक्षा भावना के मद्देनजर अपराध नियन्त्रण के लिये अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत परिक्षेत्र मिर्जापुर के तीनों जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही के पुलिस द्वारा दिनांक 01.01.2020 से अब तक गई कार्यवाही का विवरण -

गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही-

जनपद मिर्जापुर में गैंगस्टर के कुल 113 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा 10 अभियुक्तों से 01 करोड़ 49 लाख 60 हजार की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी, जनपद सोनभद्र में 128 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा 34 अभियुक्तों से ₹ 16 करोड़ 43 लाख 54 हजार 7 सौ 43 रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण हुआ है तथा जनपद भदोही से 26 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, चार अभियुक्तों से एक करोड़ 58 लाख 82 हजार रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण की कार्यवाही हुई है, परिक्षेत्र मिर्जापुर में कुल मिलाकर 267 विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा 48 अभियुक्तों से 19 करोड़ 51 लाख 96 हजार 07 सौ 43 रुपए की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही-

जनपद मिर्जापुर में 215 व्यक्तियों जनपद सोनभद्र में 173 व्यक्तियों तथा जनपद भदोही में 137 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है परिक्षेत्र मिर्जापुर में कुल मिलाकर 525 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई है तथा जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है।

अपराधियों के विरुद्ध खोली गयी हिस्ट्रीशीट –

जनपद मिर्जापुर में 168 व्यक्तियों, जनपद सोनभद्र में 77 व्यक्तियों तथा जनपद भदोही में 36 व्यक्तियों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गयी है। परिक्षेत्र में कुल 281 व्यक्तियों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोली गयी है तथा हिस्ट्रीशीटों की निगरानी करायी जा रही है।

मास्क ना पहनने पर की गयी कार्यवाही-

जनपद मिर्जापुर में 01 करोड़ 9 लाख 82 हजार 600 रुपये जुर्माना, जनपद सोनभद्र में '63 लाख 06 हजार रुपए तथा जनपद भदोही में 30 लाख 44 हजार 07 सौ रुपए जुर्माना की कार्यवाही की गयी, परिक्षेत्र मिर्जापुर में कुल मिलाकर 2 करोड़ 03 लाख 33 हजार 03 सौ रुपए जुर्माना की कार्यवाही की गयी।

लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही-

जनपद मिर्जापुर में 22 लाख 89 हजार 700 रुपए जुर्माना, जनपद सोनभद्र में 22 हजार 05 सौ रुपए तथा जनपद भदोही में 4 लाख 62 हजार 04 सौ पचास रुपए जुर्माने की कार्यवाही की गयी, परिक्षेत्र मिर्जापुर में कुल 27 लाख 74 हजार 650 रुपए जुर्माने की कार्यवाही की गयी।

वाहनों का चालान तथा सीज की कार्यवाही-

जनपद मिर्जापुर में 46 हजार 341 वाहनों का चालान तथा 953 वाहन सीज, जनपद सोनभद्र में 34 हजार 373 वाहनों का चालान तथा 1042 वाहन सीज जनपद भदोही में 38 हजार 697 वाहनों का चालान तथा 572 वाहन सीज ,परिक्षेत्र में कुल 1 लाख 19 हजार 411 वाहनों का चालान तथा 2 हजार 5 सौ 67 वाहनों के सीज की कार्यवाही की गयी।

एमवी एक्ट के अंतर्गत वाहनों के जुमाने की कार्यवाही-

जनपद मिर्जापुर में 43 लाख 05 हजार 50 रुपए, जनपद सोनभद्र से 5 लाख 54 हजार 200 रुपए, तथा जनपद भदोही से 5 लाख 82 हजार 50 रुपए जुमाने की कार्यवाही एमवी एक्ट के अंतर्गत की गई है परिक्षेत्र मिर्जापुर से कुल 54 लाख 41 हजार 300 रुपए जुमाने की कार्यवाही एमबी एक्ट के अंतर्गत की गयी है।

इस प्रकार से विन्ध्याचल परिक्षेत्र के जनपदों द्वारा दिनांक-01.01.2020 से 10.10.2020 तक कुल 2 करोड 85 लाख, 49 हजार 02 सौ पचास रुपये का सम्मन शुल्क वसूला गया है व 01 लाख, 19 हजार 04 सौ 11 गाडियों का चालान व 02 हजार 05 सौ 67 गाडियों के सीज किये जानेकी कार्यवाही की गयी है।
